




“अच्छी आदतें” आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती हैं




अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं



अपने नाखूनों को साफ रखें और नियमित रूप से काटें



सही तरीके से फेस मास्क पहनें



सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा सामाजिक दूरी बनाए रखें